

**HONDA**

**Honda India Power Products Limited**

Head Office & Works :

Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)

Greater Noida Industrial Development Area,

Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310

Tel. : +91-120-2590 100

Fax : +91-120-2590 350

Website : [www.hondaindiapower.com](http://www.hondaindiapower.com)

CIN : L40103DL2004PLC203950

E-mail : [ho.mgt@hspp.com](mailto:ho.mgt@hspp.com)

**Ref: HIPP/SE/2022-23/33**

July 26, 2022

**Corporate Relationship department**

**BSE Limited**

Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

**Mumbai — 400 001**

**Listing Department**

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G— Block,

Bandra Kurla Complex Bandra (E),

**Mumbai — 400 051**

**Sub: Newspaper advertisement regarding publication of public notice**

Dear Sir,

In accordance with Regulations 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the Public Notice published in 'Financial Express' and 'Jansata' on 26<sup>th</sup> July, 2022 in connection with conducting 3 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing/Other Audio Video Means, in accordance with MCA Circular dated 5<sup>th</sup> May, 2022 read with SEBI Circular dated 13<sup>th</sup> May 2022.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.


Yours truly

**For Honda India Power Products Limited**

*Sunita Ganjoo*

**Sunita Ganjoo**

**Company Secretary and Compliance Officer**



*Encl. as above*

**Honda India Power Products Limited**

(Formerly Honda Siel Power Products Limited)

Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Canara Bank**  
 Regional office 1: 77, H.N. Kothari, 1st Floor, Nehru Nagar, Agra.  
**E-Auction Notice**  
**REGISTRATION AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002**  
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "whatever there is" for the recovery of dues to the Bank. As per Demand Notice under Section 13(2) & further interest thereon, charges and costs due to the Canara Bank, as detailed in the table below:

Name & Address of Borrower & Guarantors	Total Liabilities	Description of Property	Type of Possession	Reserve Price Earned Money 10%
M/S Manshvi Food Products, Add. Maa Vaishno Dham Phase 1, Mauja Bainpur, Sikandra, Agra -28207. Through its proprietor: Smt Sandhya Sharma W/O Shri Hariom Sharma, Property Municipal No 43/120 L/P-5, Khasra No 1210, Saroj Vihar, Kallash Mandir, Sikandra Road, Agra -282007, Gaurantor:- Shri Hari om Sharma S/O Shri Sewati Lal Sharma, R/o: Maa Vaishno Dham Phase 1, Mauja Bainpur, Sikandra, Agra -282007	Rs. 21,72,161.00 as on 31.03.2019 + Int. & Others Charges thereon	Residential Plot situated at part of Khasra No 1210, Mauza Bainpur, Saroj Vihar Colony, Tehsil & Distt Agra measuring 66.89 sq mtr in the name of Shri Hariom Sharma S/O Shri Sewati Ram. Bounded as: East:- Others Property, West:- 15' Wd Rasta, North:- Property of Neelu & Neeraj, South:- Owners Property	Physical	Rs. 9,25,200.00 Rs. 92,520.00

**Last Date & Time for receipt tender document: 26.08.2022 up to 5.00 PM, Date & Time of e-auction: 29.08.2022 from 11.30 AM to 12.30 PM (With extension of 5 min. duration each till the conclusion of sale)**  
 For details terms and conditions of the sale please refer the Canara Bank's website www.canarabank.com or may contact the related Branch during office hours on any working day. Authorised Officer reserve the right to cancel the auction at any point of time. For more information contact Mob. 9413414275, 8543889393  
 Date: 26.07.2022  
 Authorized Officer, Canara Bank

**PAVNA INDUSTRIES LTD.**  
 CIN-134109UP1994PLC016359, GSTIN-09AACCP0664126, PAN-AACCP0664L  
 Registered Office: 'VIMLANCHAL', Hari Nagar, Gopal Pur, Aligarh - 202001 (UP - INDIA)  
 Tel No.: +91 8006409330 E-mail: enquiry@pavnagroup.com, info@pavnazadi.com  
 Website: www.pavnagroup.com

**NOTICE**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to section 108 and 110 of Companies Act 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, 39/2020 dated 31<sup>st</sup> December 2020 and 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), in relation to passing of resolutions by companies under the Companies Act, 2013 through electronic voting (remote e-voting), the company has on Tuesday 26 July 2022 sent an email of Notice dated 26 July 2022 to all the members whose name appeared on Register of Members / Record of Depositories received from National Securities Depository Limited/ Central Depository Service Limited on Friday July 15, 2022 (Cut-off date). The Company seeks approval of the shareholders of the Company by remote e-voting, including voting by electronic means, for the following matters:

Sr. No.	Description of the Resolution
1.	Increase in Authorised Share Capital of the Company from 6.10 Cr to 15 Cr
2.	Alteration of the Capital Clause of the Memorandum of Association
3.	Issue of Bonus Shares in the ratio of 1:1
4.	Migration from SME to Main Board of NSE Limited and BSE Limited

Members whose names are recorded in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the notice as for information purpose only.

The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-Voting facilities to the Members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner. Members are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-Voting process not later than 5.00 p.m. (IST) on August 26, 2022. Remote e-Voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date, i.e. July 15, 2022, shall cast their vote electronically. The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on the cut-off date. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have not registered their email address and mobile numbers, are requested to register/ update the same with RTA i.e. Linkintime India Private Limited by writing them to nikita.jirepatil@linkintime.co.in.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or write an email to Ms. Himali Singh at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

The Board of Directors has appointed Mr. Nitin Jain (Membership Number: 506898), Practicing Chartered Accountant, as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of remote e-voting will be declared on Sunday, August 28, 2022 at the registered office of the Company. The remote e-voting results and report of scrutinizer will be furnished to NSE Limited and will also be uploaded on the Company's Website <https://www.pavnagroup.com>

For Pavna Industries Limited  
 Date : July 26, 2022  
 Sd/-  
 Mr. Swapnil Jain  
 Managing Director

NOTICE BY WAY OF SUBSTITUTED SERVICE UNDER RULE 38 OF THE NCLT RULES, 2016 READ WITH ORDER V RULE 20 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908  
 IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH  
 NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED  
 VS.  
 FIVE CORE ELECTRONICS LIMITED  
 I.A.No.2855 OF 2022 IN C.P. No. 1671(ND) 2019

To,  
 1. Mr. Amarjit Singh Kalra, Director  
 C-130, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015  
 2. Mr. Surinder Kaur Kalra, Director  
 C-130, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015  
 3. Mr. Jagjit Kaur Kalra, Director  
 C-130, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015

WHEREAS Mr. Manoj Kulshrestha Resolution Professional for has filed I.A. No. 2855 of 2022 under section 45 and 2718 of 2022 under Section 66 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 seeking appropriate and consequent directions against the transactions resulting in diversions of investment of corporate debtor in overseas subsidiaries and whereas, the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench issued notice 09.06.2022 and 07.07.2022 on all concerned parties including you the above- named. That vide order dated 09.06.2022 and 07.07.2022 the Hon'ble NCLT has permitted the undersigned to serve you the Addressee through substituted service.

**TAKE NOTICE** that the above captioned matter will now be listed on **27.07.2022 & 23.08.2022** before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench. The Hon'ble Bench has directed you to file your reply to the I.A. No. 2855/2022 & 2718/2022. You are further directed to either appear in person or through your Authorised Representative on the next date of hearing i.e., 27.07.2022 & 23.08.2022

**TAKE NOTICE** that in default of your appearance on the day aforementioned, the application will be heard and determined in your absence.

Date: 25.07.2022  
 Place: Delhi  
 MANOJ KULSHRESTHA  
 Resolution Professional  
 Five Core Electronics Limited (IN CIRP)

**NHHFDL**  
 NEW HABITAT HOUSING FINANCE & DEVELOPMENT LIMITED  
 Office: New Habitat Housing Finance & Development Limited, Unit No. 761, 7th Floor Vegas Mall, Plot No. 06, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075, E-mail: info@newhabitat.in, Web: www.newhabitat.in, Mob: +91-999694526

**Notice under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act (SARFAESI), 2002.**

In respect of loan availed by below mentioned borrowers/co-borrowers from New Habitat Housing Finance & Development Limited (NHHFDL) which have become NPA with below mentioned balance outstanding on date mentioned below. We have issued them Demand Notice U/s Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act (SARFAESI), 2002 by speed post. We have indicated our intention of taking possession of the securities owned on one of you as per section 13(4) of the SARFAESI Act, in case of you fails to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event you are not discharging liability as set out herein below the NHHFDL/Secured creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of the SARFAESI Act, and while publishing the possession notice/auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the NHHFDL/Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Sr. No.	Name of the borrowers/co-borrowers and Date of NPA	Date of Demand Notice, Amount outstanding	Details of secured assets
1.	Loan Account No. HSG/N/HEA/NOI/1218/0006 have been classified NPA on 30/08/2022 Sh. Braj Kishore Alias Brijkishor Dixit S/o Sh. Dharmendra Prakash and Smt. Nisha Devi W/o Shri. Braj Kishore Flat No. 204, Front Side, Second Floor, Block-B, Shiv Homes-2, Khasra No.1271, Village Chaprola Pargana & Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, U.P.-201301. Sh. Swatantra Kumar (Guarantor) S/o Sh. Chhedi Shah, House No. 4, Kheda Dharmapura Chhapraula, Gautam Budh Nagar, U.P.-201009	15.07.2022 Rs. 10,17,603/-	Flat No. 204, Front Side, Second Floor, Block-B, Raikot 08 Square Meter (850 square feet) situated at Khasra No.1271 Shiv Homes Second, Village Chaprola Pargana & Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, U.P.
2.	Loan Account No. NHS/N/HEA/NSP/1117/0006 have been classified NPA on 30/04/2022 Mr. Dhan Pal Singh S/o Mr. Bali Ram and Mrs. Sushila Singh W/o Mr. Dhan Pal Singh, B-188, First Floor, Ram Prastha Colony, Ghaziabad, U.P.-201011. M/s NIDHI BUILDCON Through its Partners Mr. Dhan Pal Singh S/o Mr. Bali Ram Mr. Sunil Kumar S/o Mr. Harkesh Singh Shop No. 3, (Ground Floor), Plot No.15, Shalimar Garden Extn-I, Ghaziabad, U.P. Mr. Sunil Kumar S/o Mr. Harkesh Singh (Guarantor) B-120, Harjan Basti, Kondli, East Delhi-110096	11.05.2022 Rs. 32,60,805/-	Residential Flat No.UG-1, Upper Ground Floor, (H.I.G. Type, Front Side) consisting of one drawing cum dining room, three bedrooms, two toilets/bathrooms, one kitchen & balcony having covered area 800 square feet approx. on built-up Plot No.802, situated at residential colony Shalimar Garden Extn-I, Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad, U.P.
3.	Loan Account No. NHS/N/HEA/NSP/1217/0001 & N/HS/N/HEA/NSP/0418/0004 have been classified NPA on 30/04/2022 Mr. Dhan Pal Singh S/o Mr. Bali Ram and Mrs. Sushila Singh W/o Mr. Dhan Pal Singh B-188, First Floor, Ram Prastha Colony, Ghaziabad, U.P.-201011. M/s NIDHI BUILDCON Through its Partners Mr. Dhan Pal Singh S/o Mr. Bali Ram Mr. Sunil Kumar S/o Mr. Harkesh Singh Shop No. 3, (Ground Floor), Plot No.15, Shalimar Garden Extn-I, Ghaziabad, U.P. Mr. Sunil Kumar S/o Mr. Harkesh Singh (Guarantor) B-120, Harjan Basti, Kondli, East Delhi-110096	11.05.2022 Rs. 54,83,373/-	Shop No. 3, (Ground Floor) having covered area 41.66 sq.mtr. Approx. on built-up Plot No.15, situated at residential colony Shalimar Garden Extn-I, Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad, U.P. Colateral Security- Residential Flat No. F-2, First Floor, (H.I.G. Type, Front Right Hand Side) consisting of one drawing cum dining room, three bedrooms, two toilets/bathrooms, one kitchen & balconies having covered area 800 sq. ft. approx. on built-up Plot No.802, situated at residential colony Shalimar Garden Extn-I, Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad (U.P.)
4.	Loan Account No. HSG/N/HEA/NOI/1120/0001 have been classified NPA on 31/05/2022 Sh. Gopal Kumar S/o Sh. Ravindra Prasad Singh and Smt. Chitrakumar Kumari W/o Sh. Gopal Kumar Flat No.107A, Second Floor, Rear Side Khasra No.417, F-Block, School Road, Village Khanpur, Delhi-110062.	13.06.2022 Rs. 8,44,946/-	Portion of Second Floor, Rear Side (having covered area 40 sq. yards) consisting of One Room Set (without roof/terrace rights) in/of Built-up property bearing No. F-107-A, comprising in Khasra No.417, alongwith proportionate undivided, indivisible and impartible ownership rights in the land underneath, with common rights to use entrance, staircase, passage, two wheeler parking & terrace for overhead water tank maintained & installed the TV/Dish Antenna and other common services in the said property, which shall remain common and shall proportionately share the maintenance expenses, incurred from time to time, for the said common services with the other occupants of the building (hereinafter called the said portion/unit of the said property), situated at F-Block, School Road, Khanpur, New Delhi, revenue estate of Village Khanpur, Tehsil Haultahat, New Delhi-110062.
5.	Loan Account No. HSG/N/HEA/NSP/0218/0009 & HSG/N/HEA/NSP/0118/0016 have been classified NPA on 31/05/2022 Sh. Gaurav Bhardwaj S/o Shri Krishan Avtar Sharma and Shri Krishan Avtar Sharma S/o Sh. Gauri Shankar Sharma Flat No. C-4 (Second Floor), Rear LHS portion, at Plot No.44A, Sector-5, Radhey Shyam Park, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005. Sh. Amit Kumar (Guarantor) S/o Sh. Lallan Yadav House No. 1062, Chitrakut Colony Arthala, Gali No.4, Mohan Nagar, Ghaziabad, UP-201007	13.06.2022 Rs. 18,99,049/-	Flat No.C-4 (Second Floor), (without Roof Rights) covered area 79.42 sq. meter min. 95 sq. yards having two bedrooms one D/D, One Kitchen, Two toilets/bathroom, built at Plot No.44A, Khasra No.3799 Residential Colony Sector-5, Radhey Shyam Park, Hadbast Village Pasonda (Rajender Nagar) Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad.

The above mentioned borrowers/co-borrowers are advised (1) to collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) to pay the balance outstanding amount alongwith interest and cost etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.  
 Place : NEW DELHI  
 Date: 26/07/2022  
 AUTHORIZED OFFICER  
 NEW HABITAT HOUSING FINANCE AND DEVELOPMENT LIMITED

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**  
 19-11 से आपकी निरपेक्ष "सेविंग" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
**BRANCH OFFICE: GULMOHAR PARK, NEW DELHI**  
**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
**Appendix-IV [See Rule - 8(1)]**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Gulmohar Park, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice on 04/05/2022, calling upon the Borrowers: **MR. ANIL BIDHURI S/O. JAGPAL (Loan A/c. 3943368186)**, to repay the amount as mentioned in the notice being Rs.29,63,448/- (Rupees Twenty Nine Lakh Sixty Three Thousand Four Hundred and Forty Eight Only) due to us on 04.05.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rules on this **22nd Day of July of the Year 2022**. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Gulmohar Park, New Delhi Branch for an amount of Rs.29,63,448/- (Rupees Twenty Nine Lakh Sixty Three Thousand Four Hundred and Forty Eight Only) as on 04.05.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon.

Your attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF PROPERTY**  
 Equitable Mortgage of the Property situated at : RZ - 2039/26, Gali No.26, Left Hand Side Portion on First Floor, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019. **Boundaries of the Property:**  
 North: Remaining Portion South: Gali No.26 1/2  
 East: Other's Property West: Other's Property

**DATE: 22.07.2022** Authorized Officer  
**PLACE: NEW DELHI** Central Bank of India

**HONDA**  
**Honda India Power Products Limited**  
 (formerly known as Honda India Power Products Limited)  
 CIN: L40103DL2004PLC203950  
 Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi -110025  
 Website : www.hondaindiapower.com E mail : ho.legal@hspp.com

**NOTICE OF THE 37<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

- The 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of Honda India Power Products Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Monday, 26<sup>th</sup> September, 2022 at 11:00 A.M. IST** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM.
- The Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India have vide its circulars dated 5<sup>th</sup> May, 2022 and 13<sup>th</sup> May 2022, respectively ('Circulars') extended the facility of holding the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, the Members can attend and participate in the ensuing AGM of the Company through VC/OAVM.
- In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of the AGM along with the Annual Report will be available on Company's website [www.hondaindiapower.com](http://www.hondaindiapower.com), website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.
- Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes on all Resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting) and has engaged the services of Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') to facilitate the same. Detailed procedure of remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.
- Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company /Depository, and wish to receive the AGM Notice, Annual Report, and login details for attending AGM, may send their details i.e. Name, Folio No./ DPID-Client ID and valid identity proof through e-mail to [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com) or their respective Depository Participants.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 20<sup>th</sup> September, 2022 to Monday, 26<sup>th</sup> September, 2022** (both days inclusive) for the purpose of the ensuing 37<sup>th</sup> AGM.
- To receive the dividend directly into their bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or such other electronic mode, Members are requested to register/update their complete bank details in the following manner:
  - Members holding shares in physical mode** may send the necessary documents i.e. signed request letter which shall contain Member's name, Folio Number, bank details (bank account number, name of the bank and its branch, branch address, IFSC and MICR) along with self-attested copy of identity proof, PAN card and original cancelled cheque leaf (with shareholders name printed on it), through e-mail or in physical mode to: Mas Services Limited, Unit: Honda India Power Products Limited, T-34, 2<sup>nd</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020 E-mail: [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com)
  - Members holding shares in demat mode** may reach out to their Depositories Participant(s) and get their bank account details registered/updated in their demat account(s), by following the process advised by the Depository Participant(s).

For Honda India Power Products Limited  
 Sd/-  
 Sunita Ganjoo  
 Company Secretary

Place : Greater Noida  
 Date : July 25, 2022

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**  
 19-11 से आपकी निरपेक्ष "सेविंग" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
**BRANCH OFFICE: GHONDA P.O. - MAUJAPUR, DELHI-110053**  
**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
**Appendix - IV [See Rule-8(1)]**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Ghonda, Delhi Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 02/05/2022, calling upon the **BORROWER: M/S. GARWAL EMPORIE (BORROWING FIRM) & MR. VIJENDER KUMAR SHARMA (Borrower-cum-Mortgagor)**, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,62,088.77 (Rupees Nine Lakh Sixty Two Thousand Eighty Eight and Seventy Seven Paise Only) as on 02/05/2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 02.05.2022. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **22.07.2022**. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Ghonda, Delhi Branch for an amount of Rs.9,62,088.77 (Rupees Nine Lakh Sixty Two Thousand Eighty Eight and Seventy Seven Paise Only) and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section (13) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
 Equitable Mortgage of Built-up Property Bearing No.B-151, Land measuring area 50 sq.yards, out of Khasra No.384, consisting of Two Room Set on Ground Floor and Two Room set on 1st Floor fitted with Electricity connection in running position, situated in the area of Village Ghonda Gujran Khadar, In the Abadi of Block-B, Gali No.7, Bhajanpura, Illaqa Shahdara, Delhi-110053.  
**Bounded as under:**  
 North: Road 15 ft. wide South: Property of Others  
 East: Property of Others West: Property of Smt. Savita Srivastava

**PLACE: DELHI** Authorized Officer  
**DATE: 22/07/2022** Central Bank of India

**ANUPAM RASAYAN INDIA LTD.**  
 CIN - L24231GJ2003PLC042988  
 Regd. office: Anupam Rasayan India Ltd., 8110, GIDC Industrial Estate, Sachin, Surat - 394230, Gujarat, India. Tel: +91 261 2398991-95, Website: www.anupamrasayan.com, Email: investors@anupamrasayan.com

**1. Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results of Anupam Rasayan India Ltd. for the quarter ended June 30, 2022**  
 (Amount (INR) in millions except per share)

Particulars	Quarter Ended		Financial Year Ended	
	30-June-22 Unaudited	31-Mar-22 Audited	30-June-21 Unaudited	31-Mar-22 Audited
Total Revenue	2,971.48	3,168.55	2,379.68	10,811.07
Net Profit / (Loss) (before Tax & Exceptional items)	565.93	677.22	439.65	2,212.03
Net Profit / (Loss) before Tax (after Exceptional items)	565.93	677.22	439.65	2,212.03
Net Profit / (Loss) (after Tax & Exceptional items & Share of Profit of Associates)	396.94	461.02	321.21	1,521.79
Total Comprehensive Income	388.26	463.51	311.75	1,513.42
Share Capital	1,002.75	1,002.47	999.22	1,002.47
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	16,266.03
Earnings Per Share Basic & Diluted (Face Value of Rs. 10/- each)				
(-) Basic EPS (Rs.)	3.96	4.61	3.21	15.22
(-) Diluted EPS (Rs.)	3.95	4.60	3.21	15.18

**2. Extract from the Unaudited Standalone Financial Results of Anupam Rasayan India Ltd. for the quarter ended June 30, 2022**  
 (Rs. in millions except per share data)

Particulars	Quarter Ended		Financial Year Ended	
	30-June-22 Unaudited	31-Mar-22 Audited	30-June-21 Unaudited	31-Mar-22 Audited
Total Revenue	2,971.48	3,168.55	2,379.69	10,811.07
Net Profit / (Loss) (before Tax & Exceptional items)	565.48	673.16	437.06	2,201.81
Net Profit / (Loss) before Tax (after Exceptional items)	565.48	673.16	437.06	2,201.81
Net Profit / (Loss) (after Tax & Exceptional items)	374.04	450.88	319.79	1,507.76
Total Comprehensive Income	365.35	453.37	310.32	1,499.40
Share Capital	1,002.75	1,002.47	999.22	1,002.47
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	16,244.07
Earnings Per Share Basic & Diluted (Face Value of Rs. 10/- each)				
(-) Basic EPS (Rs.)	3.73	4.51	3.20	15.08
(-) Diluted EPS (Rs.)	3.72	4.50	3.20	15.04

[1] The above financial results for the quarter ended June 30, 2022 have been prepared by the Company in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on July 25, 2022. An interim review of the above results has been carried out by the statutory auditors of the Company.

[2] The Board of Directors have recommended an interim dividend of INR 0.40 @ 4% per Equity Share of Face Value of INR 10/- each.

[3] Based on the management approach as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker (CODM) evaluates the company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators of business segment/s in which the company operates. The Company is primarily engaged in the business of custom synthesis and manufacturing of specialty chemicals which the management and CODM recognise as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.

[4] The Company had vide a Share Purchase agreement dated February 01, 2022 acquired 24.96% equity shares of INR 10/- each of TANFAC Industries Limited ("TANFAC"). Pursuant to an open offer made by the Company as required by SEBI (SAST) Regulations, the Company acquired a further 0.83% equity shares of TANFAC on May 21, 2022. As a consequence, the Company has obtained de facto effective control over TANFAC with effect from May 21, 2022. Since the control has happened only towards the middle of the quarter, the Company has on the basis of available information, consolidated the performance of TANFAC for this quarter using the equity method.

[5] The figures of the previous period have been re-grouped / rearranged and / or recasted wherever considered necessary. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and audited year to date figures up to the third quarter of the current / previous financial year.

For ANUPAM RASAYAN INDIA LIMITED  
 Anand Desai  
 Managing Director  
 DIN: 00038442

Place: Surat  
 Date: July 25, 2022

